



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 6, 1975/फाल्गुन 15, 1896  
No. 55] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 6, 1975/PHALGUNA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 6th March 1975

**G.S.R. 142(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 58/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975, namely:—

In the said notification, for the words and figure "of goods falling under the said Item No. 68", the words "of any goods" shall be substituted.

[No. 77/75]

P. N. MALHOTRA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1975

सा० का० नि० 142(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 58/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, “उक्त मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले मध्यवर्ती माल या माल के” शब्दों और अंक के लिए, “मध्यवर्ती माल या किसी भी माल के” शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 77/75]

पी० एन० मल्होत्रा, अवसर सचिव ।